

Angewandte

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...
...

...

श्री ५५७७७७७७

आपका

आशा है, आप स्वस्थ और प्रसन्न हैं।

विद्यार्थी के आसपास कहीं प्रवेश करें। इस प्रकार आने-जाने में भी सुविधा रहेगी।

आपकी समय इसके लिये है संकल्प। रहनेके लिये निर्माणा लिये है, कि यथासंभव

संस्कारों में प्रविष्ट करें। मैं वहां और कोई काम लेकर नहीं आऊंगा, इसलिये

है, जब कि आप उसका एक *small* अनुवाद कर लें, फिर हम दोनों उसे मूल

या नहीं। मैं चाहता हूँ, कि वह समाप्त हो जाय, तो अच्छा। यह सभी सम्भव

प्रस्तावों के अनुवादों की कार्य शुरू हुआ था, वह कुछ आगे बढ़ा

देता आऊंगा।

गया रहेगा। बौद्ध-संस्कारों को बहुत गंभीर प्रकाशित हुआ है, उसे भी साथ

है, उस समय आपकी आपकी साथ लाऊंगा। संस्कारों की तब तक रूप

मध्य-स्थितियों का इतिहास अब प्रायः रूप कर समाप्त हो चुका है। आशा

है। चीन सरकारोंके संस्कारोंकी पूर्ण आशा है।

इतिहास और सांस्कृतिक अभिसंधानोंके बारेमें जानकारी प्राप्त कर केना में उद्देश्य

जाकर रहनेके लक्ष्यता होने सम्भवतः कलिम्पोंग होकर लौटेंगा। नये यामों लिल्लतके

वहां एक महान् इतिहास विद्यार है। आने साल अर्धलक्ष में चीन जा रहा हूँ। प्रकाश

हम अकेलेके प्रथम सप्ताह — ३ या ४ तारीखों — कलिम्पोंग आ रहे हैं।

आशा है कि-दोनों पत्र लिखनेमें आपकी कठिनाई नहीं होगी।

प्रिय उत्तर साहब,

१५-७-५६

राहुल साकेतयानम
दार्शनिक, हैशीवली
मसूरी रा०.....१६५

Handwritten text in Arabic script, likely a formal document or record, enclosed in a double-line border. The text is written in a clear, consistent cursive style. It appears to be a list or a series of entries, with each line starting with a small symbol or character. The text is written in black ink on aged, slightly yellowed paper.

Handwritten marginalia or a small note located to the left of the main text, written in the same Arabic script.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature, date, or a concluding note, written in a larger, more expressive cursive style.

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 14th inst. in relation to the above mentioned matter. I have the pleasure to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration. I am, Sir, very respectfully,
 Yours obediently,
 J. M. [Signature]

Перих Бом-г
Мироб.

General letter

order to order

order -

of the ...

7



УЛААНБААТАР ДАХЬ
СҮХБААТАРЫН ХӨШӨӨ

Хаана

Хэнд

Явуулагчийн адрес: